



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 09.01.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

सड़क सुरक्षा माह के अन्तर्गत की गई कार्यवाही



पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी श्री संजीव सुमन के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय के मार्गदर्शन में एआरटीओ रमेश कुमार चौबे मय हमराही व प्रभारी यातायात जय प्रकाश यादव मय हमराही व यातायात पुलिस द्वारा आज दिनांक 09.01.2023 को सड़क सुरक्षा माह के अन्तर्गत, यातायात पुलिस व एआरटीओ खीरी की संयुक्त टीम द्वारा अभियान चलाकर गन्ना ढुलाई में लगे ट्रैक्टर-ट्राली और ट्रक इत्यादि वाहनों में लाल कपड़ा व रिफ्लेक्टिव टेप लगवाया गया। चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए पंपलेट, हैंड बिल वितरित कराए गए व चालकों के साथ गोष्ठी कर यातायात नियमों व कोहरे में वाहन चलाते समय सतर्कता बरतने हेतु संगोष्ठी कर जागरूक करते हुए जानकारी दी गई।

थाना उचौलिया पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त श्याम सिंह उर्फ श्यामा को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 09.01.23 को थाना उचौलिया पुलिस द्वारा अभियुक्त श्याम सिंह उर्फ श्यामा पुत्र स्व० चौबर सिंह नि० ग्राम रतनपुर थाना उचौलिया जनपद खीरी को मोहम्मदपुर चैनू चौराह से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना उचौलिया पर मु०अ०सं० 08/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

श्याम सिंह उर्फ श्यामा पुत्र स्व० चौबर सिंह नि० ग्राम रतनपुर थाना उचौलिया जनपद खीरी

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० प्रमोद कुमार त्यागी, थाना उचौलिया
- 2-हे०का० लक्ष्मण सिंह चंदेल
- 3-का० ओमकार सिंह

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

1. थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, अ0सं0 539/22 धारा 363/366 भादवि में वांछित अभियुक्त गौतम पुत्र मेवालाल थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 160 लीटर अवैध शराब बरामद कर 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **160 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **02 शराब भट्टी** बरामद कर **14 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **13 अभियोग** पंजीकृत किए गए।